

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2025 — पौष 25, शक 1946

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50. — किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के चयन के लिये गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) एवं (4) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के बालक कल्याण समिति में, क्रमशः अध्यक्ष/सदस्य के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :-

क्र.	जिला	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम	बालक कल्याण समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बस्तर	श्री नरेन्द्र पाणिग्रही	1. श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव 2. श्री संतोष कुमार जोशी 3. श्री रामकृष्ण ठाकुर 4. सुश्री धनेश्वरी वर्मा
2.	बीजापुर	—	श्री गोरला संतोष कुमार
3.	सुकमा	—	श्री राजेश कुमार राव
4.	दंतवाड़ा	श्रीमती बबीता पाण्डेय	श्री श्याम सिंह ठाकुर
5.	कोण्डागांव	—	श्री इन्द्रदेव शर्मा
6.	नारायणपुर	—	1. श्रीमती पुष्पलता सोनी 2. श्री मुरलीधर देवांगन
7.	कांकेर	श्रीमती बुलबुल वैद्य	1. सुश्री नीला साहू 2. श्री मुकेश शर्मा 3. श्री आत्माराम निषाद
8.	बालोद	श्री कृष्णा साहू	1. श्रीमती यशोदा साहू 2. श्रीमती दुखिया निषाद 3. श्री चन्द्रहास साहू 4. श्रीमती पुष्पा सिंह ठाकुर
9.	बेमेतरा	श्रीमती निवेदिता शरद जोशी	1. श्रीमती रेणुका शर्मा 2. श्रीमती लक्ष्मी साहू 3. श्री शिवकुमार साहू 4. श्री प्रफुल्ल शर्मा
10.	दुर्ग	श्री राकेश साहू	1. श्रीमती रचना अग्रवाल

			2. श्री मुकेश सोनी 3. श्रीमती भावना अग्रवाल
11.	राजनांदगांव	श्रीमती सरिता भोजवानी	1. श्रीमती अल्का देशमुख 2. श्री दीपक कुमार वर्मा 3. श्री कुल प्रकाश वाल्दे 4. श्रीमती सरिता सिन्हा
12.	कोरबा	—	1. श्रीमती मधुलता राजवाड़े 2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पटेल 3. श्री मनोज ठाकुर 4. श्रीमती उमा भारती सराफ
13.	मुंगेली	श्री आशीष मिश्रा	1. कु. सुनीता ठाकुर 2. श्री मिथलेश चौबे
14.	रायगढ़	श्री गोवेश कुमार नायक	1. श्रीमती अर्चना मिश्रा 2. श्री रूपलाल चौहान 3. श्रीमती निवेदिता पटनायक
15.	बलरामपुर	—	1. श्रीमती रंजिता गुप्ता 2. श्री बंसत कुमार विश्वास
16.	कोरिया	श्री रूपनारायण पाण्डेय	1. श्रीमती सावित्री पाण्डेय 2. श्रीमती आभा चारुपा 3. सुश्री उषा लहरे
17.	जशपुर	श्री नितिन राय	1. श्रीमती हेमा शर्मा 2. श्री रामेश्वर राम 3. श्री संदीप कुमार पाठक
18.	सूरजपुर	श्रीमती किरण बघेल	1. श्रीमती नंदिता सिंह 2. श्री संजय सोनी 3. श्री रुद्रप्रताप राजवाड़े 4. श्रीमती अमृता राजवाड़े
19.	रायपुर	कु. श्वेता रानी	1. श्रीमती प्रतिमा सिंह चंदेल 2. डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर 3. डॉ. नेतराम डडसेना 4. श्रीमती मनीषा तिवारी
20.	बलौदाबाजार	श्रीमती वीणा वर्मा	1. श्रीमती सोनल केशरवानी 2. श्री युगल किशोर वर्मा 3. श्री भुपेन्द्र वर्मा 4. श्री शिवनरेश मिश्रा
21.	धमतरी	श्रीमती सती केसवानी	1. श्रीमती चन्द्रकला पटेल 2. श्रीमती अनामिका शर्मा 3. श्रीमती नमिता साहू
22.	गरियाबंद	श्री प्रशांत कुमार मानिकपुरी	1. श्रीमती ताकेश्वरी साहू 2. श्रीमती प्रीति मिश्रा 3. श्री धनाराम साहू
23.	महासमुंद	श्री संदीप दीवान	1. श्रीमती सुनिता साहू 2. डॉ. श्रीमती वाणी तिवारी 3. श्रीमती आरती श्रीवास्तव
24.	बिलासपुर	श्रीमती रीता बरसैया	1. श्रीमती मधु तिवारी 2. डॉ. नवीन कुमार कौशिक 3. श्री शिवसागर तिवारी 4. श्री क्रांतिलाल साहू
25.	जांजगीर-चांपा	श्री गणेश प्रसाद शर्मा	1. श्रीमती आरती यादव 2. श्री देवप्रसाद बर्मन 3. श्री तपोधन सिंह सिसोदिया 4. श्रीमती अनुराधा शुक्ला
26.	सरगुजा	—	1. श्रीमती गीता श्रीवास्तव 2. श्री राजेश कुमार सराठे 3. श्रीमती सुमन सिंह 4. श्री कमल कुमार कश्यप

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- (3) बालक कल्याण समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अनुसार अपनी बैठक आहूत करेगी, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) बालक कल्याण समिति, बाल गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपनी बैठक आहूत करेगी।
- (5) बालक कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (27) की उप-धारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (6) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 15(6) अनुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे।
- (7) समिति, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के अनुसार बालकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिये कार्य करेंगी।
- (8) यदि नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो बालक कल्याण समिति के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य स्थगित करना होगा, एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
- (10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं फार्म 49 में शपथ पत्र जमा करना होगा।
- (11) नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लेखित तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को, कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित तत्संबंधी जिले के किशोर न्याय बोर्ड में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, नीचे उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये, नियुक्त करती है, अर्थात :-

क्र.	जिला	किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	बस्तर	श्री चुम्पन सिंह ठाकुर
2	बीजापुर	श्रीमती नीला बाई आलम
3	दंतेवाड़ा	श्रीमती सुनीता ठाकुर
4	कोण्डागांव	1. सुश्री सरिता जायसवाल 2. श्री नरपति राम पटेल
5	नारायणपुर	श्रीमती पूनम केशरा
6	कांकेर	1. श्रीमती हेमलता वैष्णव 2. श्री विनोद कुमार यादव

7	बालोद	1. श्रीमती गायत्री साहू 2. श्रीमती मनीषा यादव
8	दुर्ग	1. श्रीमती पायल पाण्डेय 2. श्रीमती पुष्पा पटेल
9	राजनांदगांव	1. श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव 2. श्री राकेश सिंह राजपूत
10	बलौदाबाजार-भाटापारा	1. श्रीमती अर्पणा सराफ 2. श्री प्रवीण अग्रवाल
11	धमतरी	1. श्रीमती दीना साहू 2. श्री खेमलाल साहू
12	गरियाबंद	श्रीमती पूर्णिमा तिवारी
13	महासमुंद	1. श्रीमती निरंजना शर्मा 2. श्रीमती सुनीता देवांगन
14	बिलासपुर	श्रीमती कुन्ती कश्यप
15	कोरबा	1. श्रीमती संगीता अग्रवाल 2. श्री प्रदीप कुमार मंहत
16	जांजगीर चापा	1. श्रीमती संतोषी राठौर 2. श्री सुरेश कुमार जायसवाल
17	मुंगेली	1. श्रीमती सुलेखा टंडन 2. श्री ओमप्रकाश चंद्राकर
18	बिलासपुर	डॉ. उषा किरण वाजपेयी
19	बलरामपुर	श्री संजीव कुमार
20	कोरिया	1. श्रीमती अस्मिता जायसवाल 2. श्रीमती कमलावती दास
21	जशपुर	1. श्रीमती अर्चना अग्रवाल 2. श्री सत्येन्द्र नारायण मिश्रा
22	सूरजपुर	1. श्रीमती ललिता जायसवाल 2. श्रीमती कविता सिंह
23	सरगुजा	1. श्रीमती देवन्ती साहू 2. श्रीमती रानू पाण्डेय

- (1) यह नियुक्तियां अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं व्यक्तिगत वार्तालाप में दी गई जानकारी तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर की गई है। किसी भी स्तर पर गलत जानकारी या विसंगति अथवा शिकायत की दशा में राज्य शासन को संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (2) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की पदावधि, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिये होगी। नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य की आयु जिस दिन 65 वर्ष पूर्ण होगी उस दिन नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- (3) बोर्ड, बाल संरक्षण गृह के परिसर में या जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा विनिश्चित स्थान पर अपना बैठक आहूत करेगा, जिसमें विहित तिथि/समय पर अध्यक्ष/सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा (4) की उपधारा (7) के प्रावधानों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।
- (5) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 5(3) अनुसार बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ताओं राज्य सरकार को एक माह का लिखित नोटिस देकर त्याग पत्र दे सकेंगे।
- (6) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।
- (7) यदि नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता, किसी ऐसे व्यवसाय/सेवा में है, जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें अपनी वर्तमान सेवा/व्यवसाय का कार्य अनिवार्य रूप से स्थगित करना होगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (8) किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता यदि अधिवक्ता है, तो बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान प्रेक्टिस नहीं करेंगे तथा इस हेतु उन्हें किशोर न्याय बोर्ड में अपने कार्यकाल की अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य

अधिवक्ता परिषद् से अपना पंजीयन/सनद स्थगित कराना होगा तथा उन्हें इस संबंध में सुसंगत दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात ही वे किशोर न्याय बोर्ड में उपस्थिति दे सकेंगे।

- (9) यह नियुक्ति पुलिस सत्यापन होने तक प्रावधिक मानी जायेगी। यदि किसी नियुक्त अभ्यर्थी के पुलिस सत्यापन में विपरीत टीप प्राप्त होती है, तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जायेगी।
- (10) नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित जिले में उपस्थिति दिया जाना अनिवार्य होगा। जिले में उपस्थिति के समय समस्त आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
- (11) नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 यथा संशोधित 2022 के नियम 89(3) अनुसार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
- (12) माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण नै क्रमांक 4536/2024 के परिपेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड, कांकेर में की गयी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में लिये गये निर्णय के अध्वधीन होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जनवरी 2025

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 12-4/2020/मबावि/50.— किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 (2016 का 2) की धारा 04 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.01.2025 के सरल क्रमांक 10 में जिला बलौदा बाजार-भाटापारा के किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के पद के लिये श्री प्रवीण अग्रवाल का नाम लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया था, के स्थान पर राज्य शासन एतद्वारा संशोधन करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार साहू को नियुक्त किया जाता है।

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव.